

Jer

Chapter 6

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1
הַכְּרֶמֶת וְעַל-שׁוּפָר תִּקְעוּ וּבְתִקְוֵי יְרוּשָׁלַם מִקְרָב בְּנִימֹן בְּנֵי הָעִזִּים
बेत-हक्केरेम और-पर नरसिंगा बजाओ और-में-तकोआ यरूशलेम-के से-बीच बिन्यामीन-के हे-पुत्रों भागो
H1021 H7782 H8628 H8620 H3389 H7130 H1144 H5756

גְּדֹלָה וְשָׂר וּמִצְפֹּן נִשְׁקָפָה רָעָה כִּי מִשָּׂאת שָׂאוּ
बड़ा और-विनाश से-उत्तर झाँक-रही-है विपत्ति क्योंकि संकेत उठाओ
H7667 H6828 H8259 H4864 H5375

“बिन्यामीन के लोगों, अपनी जान लेकर भागो, यरूशलेम नगर से भाग चलो! युद्ध की तुरही तकोआ नगर में बजाओ! बेथक्केरेम नगर में खतरे का झण्डा लगाओ! ये काम करो क्योंकि उत्तर की ओर से विपत्ति आ रही है। तुम पर भयंकर विनाश आ रहा है।

2
הַנְּנוּהָ וְהַמְּעֻנָּה רְמִיתִי בֵּת צִיּוֹן
सुन्दर और-कोमल मैंने-नष्ट-किया-है सियोन-की बेटी
H5000 H6026 H1820 H1323 H6726

सियोन की पुत्री, तुम एक सुन्दर चरागाह के समान हो।

3
אִישׁ רָעוּ וְיָבֵאוּ אֵלֶיהָ וְעֲדָרֵיהֶם עָלֶיהָ אֶהְיֶה עֲלֶיהָ וְנִקְעוּ אֶהְיֶה עֲלֶיהָ
हर-एक-ने उन्होंने-चराया चारों-और तंबू पर-उस उन्होंने-गाड़े और-झुण्ड-उनके चरवाहे आँगे की-और-उस
H0376 H5439 H0168 H8628 H5739 H0935 H0413

אֶת-יָדוֹ
हाथ-अपना यह
H3027 H0853

गडेरिये यरूशलेम आते हैं, और वे अपनी रेवड़ लाते हैं। वे उसके चारों ओर अपने डेरे डालते हैं। हर एक गडेरिया अपनी रेवड़ की रक्षा करता है।

4
קָדְשׁוֹ עָלֶיהָ מִלְחָמָה קוּמוּ וְנִעַלְהָ בְּצַהְרֵיהֶם אֹי לָנוּ כִּי-פָנָה הַיּוֹם
पवित्र-करी पर-उस युद्ध और-हम-चढ़ें उठी और-हम-चढ़ें उठी और-हम-चढ़ें उठी
H6942 H4421 H5927 H0188 H6437 H3117

כִּי יִגְטוּ צְלִילֵי-עָרָב
क्योंकि लम्बी-हो-रही-हैं छायाएँ शाम-की
H5186 H6752 H6153

“यरूशलेम नगर के विरुद्ध लड़ने के लिये तैयार हो जाओ! उठो, हम लोग दोपहर को नगर पर आक्रमण करेंगे, किन्तु पहले ही देर हो चुकी है। संध्या की छाया लम्बी हो रही है,

5
קוּמוּ וְנִעַלְהָ בְּלַיְלָה וְנִשְׁחִיתָהּ אֶרְמְנוֹתֶיהָ:
उठी और-हम-चढ़ें उठी और-हम-चढ़ें करेंगे महलों-उसके
H5927 H3915 H7843 H0759

अतः उठो! हम नगर पर रात में आक्रमण करेंगे! हम यरूशलेम के दृढ़ रक्षा—साधनों को नष्ट करेंगे।”

6
כִּי זֶה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת כָּתוּב עַל-סֶלְלָה
क्योंकि इस-प्रकार कहता-है यहीवा सनाओं-का यहीवा पर और-डालो पेड़ काटो सेनाओं-का यहीवा
H3541 H0559 H3068 H3772 H6097 H8210 H5550 H3389

וְהָיָה עִיר מִלִּי-הֵאָּמַר עֲשֵׂק כָּל-הָעִיר
मिली-है-जिसे अत्याचार पूरी-तरह-से-उस में-बीच-उसके नगर वह
H1931 H3605 H6233 H7130

सर्वशक्तिमान यहीवा जो कहता है, वह यही है: “यरूशलेम के चारों ओर के पेड़ों को काट डालो और यरूशलेम के विरुद्ध घेरा डालने का टीला बनाओ। इस नगर को दण्ड मिलना चाहिये।” इस नगर के भीतर दमन करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

וְשָׂרָא	חֲסִיד	רַעְתָּהּ	הַקָּרָה	כֵּן	מִיָּמֶיהָ	(בְּיָמֶיהָ)	בְּהַקִּיר	7
और-लूट	हिंसा	बुराई-अपनी	उसने-ताजा-रखी-है	ऐसे	पानी-अपना	कुआँ	जैसे-ठंडा-रखता-है	
H7701	H2555				H4325	H0953		

וּמְכָה:	חָלִי	תְּמִיד	פָּנֵי	עַל-	בָּהּ	יְשֻׁמַּע
और-घाव	रोग	निरन्तर	सामने-मेरे	पर	में-उस	सुनाई-देती-है
H4347	H2483	H8548	H6440			H8085

जैसे कुँआ अपना पानी स्वच्छ रखता है उसी प्रकार यरूशलेम अपनी दुष्टता को नया बनाये रखता है। इस नगर में हिंसा और विध्वंस सुना जाता हैं। मैं सदैव यरूशलेम की बीमारी और चोटों को देख सकता हूँ।

אֶרֶץ	שְׂמֹמָה	אֲשִׁימָנָה	פֶּה-	מִגִּזְלֵה	נַפְשִׁי	תִּקַּע	פֶּה-	יְרוּשָׁלַם	הַחֲסִידִי	8
भूमि	वीराना	मैं-बनादूँगा-तुझे	कहीं	से-तुझ	प्राण-मेरा	वह-अलग-हो-जाए	कहीं	यरूशलेम	शिक्षा-लो	
H0776			H6435		H5315	H3363	H6435	H3389	H3256	

לֹא	נֹשְׁבָה:	פ
जो-नहीं	बसी-हुई	—
H3808	H3427	

यरूशलेम, इस चेतावनी को सुनो। यदि तुम नहीं सुनोगे तो मैं अपनी पीठ तुम्हारी ओर कर लूँगा। मैं तुम्हारे प्रदेश को सूनी मरुभूमि कर दूँगा। कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं रह पायेगा।”

הַשֵּׁב	יִשְׂרָאֵל	שְׂאֵרֵי	כַּנְפֵּן	יְעוֹלָלוּ	עוֹלָל	צְבָאוֹת	יְהוָה	אָמַר	כֹּה	9
लौटा	इस्राएल-के	बचे-हुए	जैसे-दाखलता	बटोरी	बटोरना	सेनाओं-का	यहोवा	कहता-है	इस-प्रकार	
H7725	H3478	H7611	H1612				H3068	H0559	H3541	

סְלִסְלוֹת:	עַל-	כְּבוֹצָר	יָדָךְ
डालियों	पर	जैसे-अंगूर-तोड़नेवाला	हाथ-अपना
H5552		H1219	H3027

सर्वशक्तिमान यहोवा जो कहता है, वह यह है: “उन इस्राएल के लोगों को इकट्ठा करो जो अपने देश में बच गए थे। उन्हें इस प्रकार इकट्ठे करो, जैसे तुम अंगूर की बेल से आखिरी अंगूर इकट्ठे करते हो। अंगूर इकट्ठे करने वाले की तरह हर एक बेल की जाँच करो।”

יִוְכְלוּ	וְלֹא	אֲזַנְם	עֲרָלָה	הִנֵּה	וַיִּשְׁמְעוּ	וְאֶעֱיֶדְהָ	אֲדַבְּרָה	מִי	עַל-	10
वे-कर-सकते	और-नहीं	कान-उनका	खतनारहित	देखी	और-वे-सुनें	और-चेतावनी-दूँ	मैं-बोलीँ	किससे	पर	
H3201	H3808	H0241	H6189	H2009	H8085		H1696	H4310		

בּוֹ:	וַחֲפָצוֹ	לֹא	לְחַרְפָּה	לָהֶם	הִנֵּה	יְהוָה	דְּבַר-	הִנֵּה	לְהַקְשִׁיב
को-उसे	वे-चाहते	नहीं	अपमान-का	के-लिए-उन	हुआ-है	यहोवा-का	वचन	देखो	ध्यान-देने-को
		H3808	H2781		H1961	H3068	H1697	H2009	H7181

मैं किससे बात करूँ? मैं किससे चेतावनी दे सकता हूँ? मेरी कौन सुनेगा? इस्राएल के लोगों ने अपने कानो को बन्द किया है। अतः वे मेरी चेतावनी सुन नहीं सकते। लोग यहोवा की शिक्षा पसन्द नहीं करते। वे यहोवा का सन्देश सुनना नहीं चाहते।

וְעַל	בְּחֹוֶן	עוֹלָל	עַל-	שִׁפְלָה	הַכִּיל	גְּלֵאִיתִי	מְלֵאִתִּי	וַיְהוָה	חֲמַת	וְאֵת	11
और-पर	में-बाहर	बच्चे	पर	उंडेलो	रोकने-से	मैं-थक-गया-हूँ	से-मैं-भरा-हुआ-हूँ	यहोवा-का	क्रोध	और	
	H2351	H5768		H8210	H3557	H3811	H4392	H3068	H2534	H0853	

מְלֵא	עַם-	זָקֵן	יְלָדָיו	אִשָּׁה	עַם-	אִישׁ	גַּם-	כִּי-	יַחְדָּו	בְּחֹוֶרִים	סוֹד
भरा-हुआ	के-साथ	बूढ़ा	वे-पकड़े-जाएँगे	स्त्री	के-साथ	पुरुष	भी	क्योंकि	एक-साथ	जवानों-की	सभा
H4390		H2205	H3920	H0802		H0376	H1571			H0970	H5475

יָמִים:
दिनों-से
H3117

किन्तु मैं (यिर्मयाह) यहोवा के क्रोध से भरा हूँ। मैं इसे रोकते—रोकते थक गया हूँ। “सड़क पर खेलते बच्चों पर यहोवा का क्रोध उंडेलो। एक साथ एकत्रित युवकों पर इसे उंडेलो। पति और उसकी पत्नी दोनों पकड़े जाएंगे। बूढ़े और अति बूढ़े लोग पकड़े जाएंगे।

12
 יָדִי אֶת־ אֶטָה כִּי־ יַחַדְוּ וְנָשִׂים שָׂדוֹת לְאֶחָרִים בְּתֵיבָהּ וְנִסְבּוּ וְנִסְבּוּ
 हाथ-मेरा यह मैं-बढ़ाऊँगा क्योंकि एक-साथ और-पत्नियाँ खेत के-लिए-दूसरों घर-उनके और-पलटेंगे
[H3027](#) [H0853](#) [H5186](#) [H0802](#) [H0312](#) [H5437](#)

יְהוָה: נְאֻם־ הָאָרֶץ יִשְׁבִי עַל־
 यहोवा-का वचन भूमि-इस बसनेवालों-के पर
[H3068](#) [H5002](#) [H0776](#) [H3427](#)

उनके घर दूसरे लोगों को दे दिए जाएंगे। उनके खेत और उनकी पत्नियाँ दूसरों को दे दी जाएंगी। मैं अपने हाथ उठाऊँगा और यहूदा देश के लोगों को दण्ड दूँगा।" यह सन्देश यहोवा का था।

13
 כָּל־וּ כְּלֵן וְעַד־ וּמִנְבִיאָ וּבִצְעַ וּבִצְעַ כָּל־וּ גְדוּלָּם וְעַד־ מִקְטָנָם כִּי
 सब याजक और-तक और-से-नबी लालच लालची सब बड़े-उनके और-तक से-छोटे-उनके क्योंकि
[H3605](#) [H3548](#) [H5704](#) [H5030](#) [H1215](#) [H1214](#) [H3605](#) [H5704](#)

עֲשֵׂה שְׂקָר:
 करनेवाले-हैं झूठ
[H8267](#)

"इस्राएल के सभी लोग धन और अधिक धन चाहते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक सभी लालची हैं। यहाँ तक कि याजक और नबी झूठ पर जीते हैं।

14
 וְאִין וְשָׁלוֹם וְשָׁלוֹם לְאִמְרָ וְנִקְלָה עַל־ עַמִּי שָׂבָר אֶת־ וַיִּרְפְּאוּ
 और-नहीं-है शांति शांति कहकर हल्के-से पर लोगों-मेरे-का घाव यह और-उन्होंने-चंगा-किया
[H0369](#) [H7965](#) [H7965](#) [H0559](#) [H7043](#) [H7667](#) [H0853](#) [H7495](#)

שָׁלוֹם:
 शांति
[H7965](#)

मेरे लोग बहुत बुरी तरह चोट खाये हुये हैं। नबी और याजक मेरे लोगों के घाव भरने का प्रयत्न ऐसे करते हैं, मानों वे छोटे से घाव हों। वे कहते हैं, 'यह बहुत ठीक है, यह बिल्कुल ठीक है।' किन्तु यह सचमुच ठीक नहीं हुआ है।

15
 וְגַם־ וְיִבְוֶשׁוּ לֹא־ בֹשׁ גַּם־ עָשׂוּ תֹעֵבָה כִּי־ הִבִּישׁוּ
 भी वे-लज्जित-होते नहीं लज्जित-होना भी उन्होंने-किया घृणा क्योंकि उन्हें-लज्जित-होना-चाहिए-था
[H1571](#) [H0954](#) [H3808](#) [H0954](#) [H1571](#) [H8441](#) [H3001](#)

אָמַר וְכִשְׁלוּ פְקַדְתִּים בְּעַת־ בְּנַפְלִים וּפְלוּ לְכֹן יִדְעוּ לֹא־ הַכְּלִים
 कहा-है वे-ठीकर-खाएँगे दण्ड-उनके में-समय में-गिरनेवालों वे-गिरेंगे इसलिए वे-जानते नहीं शर्मिदा-होना
[H0559](#) [H3782](#) [H6256](#) [H5307](#) [H5307](#) [H3045](#) [H3808](#) [H3637](#)

וְהַיְהוָה:
 — यहोवा-ने
[H3068](#)

नबियों और याजकों को उस पर लज्जित होना चाहिये, जो बुरा वे करते हैं। किन्तु वे तनिक भी लज्जित नहीं। वे तो अपने पाप पर संकोच करना तक भी नहीं जानते। अतः वे अन्य हर एक के साथ दण्डित होंगे। जब मैं दण्ड दूँगा, वे जमीन पर फेंक दिये जायेंगे।" यह सन्देश यहोवा का है।

16
 אֵי־ עִוְלוֹת לְנִתְבוֹת וְשִׁאָלוּ וְרָאוּ וְרָרִים עַל־ עַמְדוֹ וְהָיָה אָמַר כֹּה
 कहाँ पुरानी के-लिए-पगड़डियों और-पूछो और-देखो रास्तों पर खड़े-हो यहोवा कहा-है इस-प्रकार
[H0335](#) [H5769](#) [H7592](#) [H7200](#) [H1870](#) [H5975](#) [H3068](#) [H0559](#) [H3541](#)

לֹא־ וַיֹּאמְרוּ לְנַפְשָׁם מְרַגְעַ וּמִצְאוּ מִן־וְלָכוּ הַטּוֹב הַרְדֵּךְ הָיָה
 नहीं और-उन्होंने-कहा के-लिए-प्राणों-तुम्हारे विश्राम और-पाओ में-उस और-चलो अच्छा मार्ग यह
[H3808](#) [H0559](#) [H5315](#) [H4771](#) [H4672](#) [H3212](#) [H1870](#) [H2088](#)

נָלְךְ:
 हम-चलेंगे
[H3212](#)

यहोवा यह सब कहता है: "चौराहों पर खड़े होओ और देखो। पता करो कि पुरानी सड़क कहाँ थी। पता करो कि अच्छी सड़क कहाँ है, और उस सड़क पर चलो। यदि तुम ऐसा करोगे, तुम्हें आराम मिलेगा! किन्तु तुम लोगों ने कहा है, "हम अच्छी सड़क पर नहीं चलेंगे!"

נִקְשִׁיב׃ हम-ध्यान-देंगे H7181	לֹא नहीं H3808	וַיֹּאמְרוּ और-उन्होंने-कहा H0559	שׁוֹפֵר नरसिंगे H7782	לְקוֹל की-आवाज़ H7782	הַקְּשִׁיבוּ ध्यान-दो H7181	צַפִּים पहरेदार H6822	עֲלֵיכֶם पर-तुम H6822	וַהֲקַמְתִּי और-मैंने-ठहराया H6822	17
---------------------------------------	----------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	----

मैंने तुम्हारी चौकसी के लिये चौकीदार चुने! मैंने उनसे कहा, 'युद्ध—तुरही की आवाज़ पर कान रखो।' किन्तु उन्होंने कहा, 'हम नहीं सुनेंगे!'

בָּם׃ में-उनमें H0853	אֲשֶׁר- जो H0853	אֶת- यह H5712	עָדָה हे-सभा H5712	וַדַּעַי और-जान H3045	הַגּוֹיִם हे-जातियों H8085	שְׁמַעוּ सुनो H8085	לְכֹן इसलिए H8085	18
-----------------------------	------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------	----

अतः तुम सभी राष्ट्रों, उन देशों के तुम सभी लोगों, सुनो ध्यान दो! वह सब सुनो जो मैं यहूदा के लोगों के साथ करूँगा।

כִּי क्योंकि H4284	מִחֲשָׁבוֹתָם विचारों-उनके-का H4284	פְּרִי फल H6529	הַיָּדָה इन H2088	הָעַמִּים लोगों H2088	אֲלֵ- पर H0413	רַעְיָה विपत्ति H0413	מִבֵּיא ला-रहा-हूँ H0935	אֲנֹכִי मैं H0595	הִנֵּה देख H2009	הָאָרֶץ हे-पृथ्वी H0776	שְׁמַעִי सुन H8085	19
--------------------------	---	-----------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------------------	----

בָּהּ׃ को-उसे H8451	וַיִּמְאַסּוּ- और-उन्होंने-तुच्छ-जाना H8451	וְתוֹרַתִּי और-व्यवस्था-मेरी-को H8451	הַקְּשִׁיבוּ उन्होंने-ध्यान-दिया H7181	לֹא नहीं H3808	רַבְרָבִי वचनों-मेरे H1697	עַל- पर H1697						
---------------------------	---	---	--	----------------------	----------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

पृथ्वी के लोगों, यह सुनो: मैं यहूदा के लोगों पर विपत्ति ढाने जा रहा हूँ। क्यों क्योंकि उन लोगों ने सभी बुरे कामों की योजनायें बनाई। यह होगा क्योंकि उन्होंने मेरे सन्देशों की ओर ध्यान नहीं दिया है। उन लोगों ने मेरे नियमों का पालन करने से इन्कार किया है।

עֲלוֹתֵיכֶם होमबलि-तुम्हारी H4801	מִדְּרָחַק दूर H4801	מֵאֶרֶץ से-देश H0776	הַטּוֹב अच्छा H0776	וְקָנָה और-गन्ना H7070	תָּבוֹא आती-है H0935	מִשֶּׁבַּע से-शेबा H7614	לְבוֹנָה लोबान H3828	לִי के-लिए-मुझे H3828	הָזֶה यह H2088	לְמַה- क्यों H4100	20
---	----------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------	----

ס — H6149	לִי׃ को-मुझे H6149	עָרְבוּ मीठे-हैं H3808	לֹא- नहीं H3808	וּבְחֵיכֶם और-बलिदान-तुम्हारे H2077	לְרַצּוֹן के-लिए-प्रसन्नता H7522	לֹא नहीं-हैं H3808					
-----------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------	---	--	--------------------------	--	--	--	--	--

यहोवा कहता है, "तुम शबा देश से मुझे सुगन्धि की भेंट क्यों लाते हो तुम भेंट के रूप में दूर देशों से सुगन्धि क्यों लाते हो तुम्हारी होमबलि मुझे प्रसन्न नहीं करती। तुम्हारी बलि मुझे खुश नहीं करती।"

מִכְשָׁלִים ठोकरें H4383	הַזֶּה इन H2088	הָעַמִּים लोगों H2088	אֲלֵ- को H0413	נָתַן मैं-दे-रहा-हूँ H5414	הַנְּגִי देख H2009	יְהוָה यहोवा H3068	אָמַר कहता-है H0559	כֹּה इस-प्रकार H3541	לְכֹן इसलिए H3541	21
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	----

פ — H0006	וְאֶבְרוּ׃ वे-नाश-होंगे H0006	וְאֶבְרוּ वे-नाश-होंगे H0006	וְרַעֲו और-मित्र H7453	שָׁכֵן पड़ोसी H7934	יַחְדָּו एक-साथ H7934	וּבְנֵים और-पुत्र H0001	אָבוֹת पिता H0001	בָּם में-उन H0001	וְכָשְׁלוּ और-वे-ठोकर-खाएँगे H3782		
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	--	--

अतः यहोवा जो कहता है, वह यह है: "मैं यहूदा के लोगों के सामने समस्यायें रखूँगा। वे लोगों को गिराने वाले पत्थर से होंगे। पिता और पुत्र उन पर ठोकर खाकर गिरेंगे। मित्र और पड़ोसी मरेंगे।"

יְעוֹר जागेगी H5782	גְּדוּל बड़ी H5782	וְגוֹי और-जाति H5782	צָפוֹן उत्तर-के H6828	מֵאֶרֶץ से-देश H0776	בָּא आ-रहे-हैं H0935	עַם लोग H0935	הִנֵּה देख H2009	יְהוָה यहोवा H3068	אָמַר कहता-है H0559	כֹּה इस-प्रकार H3541	22
---------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	----

אָרֶץ׃ पृथ्वी-के H0776	מִיַּרְכְּתֵי- से-छोरों H3411									
------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

यहोवा जो कहता है, वह यह है: "उत्तर के देश से एक सेना आ रही है, पृथ्वी के दूर स्थानों से एक शक्तिशाली राष्ट्र आ रहा है।"

23	קִשְׁתֵּי דְחֻשׁ	וְכִי־וָא	וְחִזְקוּ	אֲכֹרֵי	הוּא	וְלֹא	יִרְחֲמוּ	קוֹלָם	כִּי־סָמֹדֵר	יִהְיֶה	וְעַל-
	धनुष	और-भाला	वे-पकड़ेंगे	कूर	है-वह	और-नहीं	वे-दया-करेंगे	आवाज़-उनकी	जैसे-समुद्र	गरजगी	और-पर
	H17198	H3591	H2388	H0394	H1931	H3808	H7355		H3220	H1993	

סוּסֵים	יִרְכְּבוּ	עָרוּךְ	כְּאִישׁ	לְמַלְחָמָה	עָלָהּ	בֵּת-	צִיּוֹן:
घोड़ों	वे-सवार-होंगे	तैयार	जैसे-पुरुष	के-लिए-युद्ध	पर-तुझ	बेटी	सियोन-की
H7392	H0376	H4421	H1323	H6726			

सैनिकों के हाथ में धनुष और भाले हैं, वे कूर हैं। वे कृपा करना नहीं जानते। वे बहुत शक्तिशाली हैं। वे सागर की तरह गरजते हैं, जब वे अपने घोड़ों पर सवार होते हैं। वह सेना युद्ध के लिये तैयार होकर आ रही है। हे सियोन की पुत्री, सेना तुम पर आक्रमण करने आ रही है।”

24	שְׂמֹעֵנוּ	אֵת-	שְׂמֹעֵנוּ	רָפוּ	יָדֵינוּ	צָרָה	הַחֲזִיקְתָּנוּ	חֵיל	כִּי־וָלָדָה:
	हमने-सुनी-है	यह	खबर-उसकी	ढीले-हो-गए	हाथ-हमारे	संकट-ने	हमें-पकड़-लिया	पीड़ा	जैसे-जननेवाली-को
	H8085	H0853	H8089	H7503	H3027		H2388		H3205

हमने उस सेना के बारे में सूचना पाई है। हम भय से असहाय हैं। हम स्वयं को विपत्तियों के जाल में पड़ा अनुभव करते हैं। हम वैसे ही कष्ट में हैं जैसे एक स्त्री को प्रसव—वेदना होती है।

25	אֵל-	[תְּצִיאֵי]	(תְּצִיאֵי)	וּבְדֶרֶךְ	אֵל-	[תְּלַכִּין]	(תְּלַכִּין)	כִּי	תָּרַב	לְאֵיב
	मत	निकलो	निकलो	और-में-रास्ते	मत	चलो	चलो	क्योंकि	तलवार	शत्रु-के-पास
	H0408	H3318	H3318	H1870	H0408	H3212	H1980		H2719	H0341

מְגוּר	מִסְבִּיב:
भय	चारों-ओर-से
H4032	H5439

खेतों में मत जाओ, सड़कों पर मत निकलो। क्यों क्योंकि शत्रु के हाथों में तलवार है, क्योंकि खतरा चारों ओर है।

26	בֵּת-	עָמִי	חֲגֹרֵי-	שָׁק	וְהִתְפַּלְשִׁי	בְּאֶפְרַיִם	אֲבָל	יִחִיד	עָשִׂי	לְךָ	מִסְפָּד
	बेटी	लोगों-मेरे-की	बाँधो	टाट	और-लोटी	में-राख	विलाप	एकलौता	करो	के-लिए-अपने	विलाप
	H1323	H2296	H8242	H6428	H0665	H0060	H3173				H4553

תְּמַרְוָרִים	כִּי	פְתָאִם	יָבֵא	הַשָּׂדֶה	עָלֵינוּ:
कड़वा	क्योंकि	अचानक	आएगा	लुटेरा	पर-हम
H8563	H6597	H0935	H7703		

हे मेरे लोगों, टाट के वस्त्र पहन लो। राख में लोट लगा लो। मेरे लोगों के लिए फूट—फूट कर रोओ। तुम एकमात्र पुत्र के खोने पर रोने सा रोओ। ये सब करो क्योंकि विनाशक अति शीघ्रता से हमारे विरुद्ध आएंगे।

27	בְּחֻזְן	נִתְתִּיחַ	בְּעָמִי	מִבְּצָר	וְתִרְעַע	וּבְחֲנָה	אֵת-	יִרְכָּם:
	परखनेवाला	मैंने-ठहराया-तुझे	में-लोगों-मेरे	गढ़	और-तू-जानेगा	और-तू-परखेगा	यह	मार्ग-उनका
	H0969	H5414	H4013	H3045	H0974	H0853	H1870	

“यिर्मयाह, मैंने (यहोवा ने) तुम्हें प्रजा की कच्ची धातु का पारखी बनाया है। तुम हमारे लोगों की जाँच करोगे और उनके व्यवहार की चौकसी रखोगे।

28	כָּל־סָרְיִים	סוּרְרִים	הֲלָכִים	רְכִיל	נְחֹשֶׁת	וּבְרִיחַ	כָּל־סָרְיִים	מִשְׁחִיתִים	הֵמָּה:
	सब	विद्रोहियों-के	चलनेवाले	चुगली-की	ताँबा	और-लोहा	सब	नष्ट-करनेवाले	हैं-वे
	H3605	H5493	H5637	H1980	H7400	H1270	H3605	H7843	H1992

मेरे लोग मेरे विरुद्ध हो गए हैं, और वे बहुत हठी हैं। वे लोगों के बारे में बुरी बातें कहते घूमते हैं। वे उस काँसे और लोहे की तरह हैं जो चकमहीन और जंग खाये हैं।

29	נִתְרַם	מִנְּחָ	[מִנְּחָ]	(מִנְּחָ)	עֲפָרָת	לְשׂוֹא	צָרָךְ	צָרָךְ
	धौकनी	से-आग	समाप्त-हो-गया	समाप्त-हो-गया	सीसा	व्यर्थ-में	शोधक	शोधन-करता-है
	H4647	H0800	H0784	H8552	H5777	H7723	H6884	H6884

וְרָעִים	לֹא	נִתְקָו:
और-दुष्ट	नहीं	अलग-होए
H3808	H5423	

वे उस श्रमिक की तरह हैं जिसने चाँदी को शुद्ध करने की कोशिश की। उसकी धोकनी तेज चली, आग भी तेज जली, किन्तु आग से केवल रांगा निकला। यह समय की बरबादी थी जो शुद्ध चाँदी बनाने का प्रयत्न किया गया। ठीक इसी प्रकार मेरे लोगों से बुराई दूर नहीं की जा सकती।

ב :הם: יהוה מאס כי להם קראו נמאס כסוד 30
— को-उन यहीवा-ने तुच्छ-जाना-है क्योंकि को-उन्हें पुकारा-गया-है तुच्छ चाँदी
[H3068](#) [H7121](#) [H3701](#)

| मेरे लोग 'खोटी चाँदी' कहे जायेंगे। उनको यह नाम मिलेगा क्योंकि यहीवा ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।"